



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 201-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017 (KARTIKA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 17 नवम्बर, 2017

**संख्या 127 / एसटी—2.**— हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, हरियाणा, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :—

### सारणी

| क्रम संख्या | मास         | प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख |
|-------------|-------------|--|
| (1)         | (2)         | (3)  |
| 1.          | जनवरी, 2018 | 20 फरवरी, 2018   |
| 2.          | फरवरी, 2018 | 20 मार्च, 2018   |
| 3.          | मार्च, 2018 | 20 अप्रैल, 2018  |

1- प्ररूप—जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए करों का संदायः प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि के लिए अपने दायित्व का, उक्त सारणी के खाना (3) में यथा उल्लिखित अंतिम तारीख, जिसको उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने कर अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात्, यथास्थिति, इलेक्ट्रोनिक नकद खाता या इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाता से विकलित करके उन्मोचन करेगा।

आशिमा बराड़,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त—कम—राज्य  
कर आयुक्त, हरियाणा।